

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 171]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 5 अप्रैल 2014—चैत्र 15, शक 1936

### विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2014

फा. क्र. 90-2014-निर्देश-चार-301.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 576-3-EVM-2014-SDR-Vol.I, दिनांक 1 अप्रैल, 2014 राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाती है।

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव।

#### भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, तारीख 1 अप्रैल, 2014—11 चैत्र, 1936 (शक)

#### निर्देश

सं. 576-3-ई.वी.एम-2014-एस.डी.आर.खण्ड I.—यतः; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करें; तथा

2. यतः; आयोग ने सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों एवं विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की परिस्थितियों पर विचार किया है, और संतुष्ट है कि भारत के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के 27 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (संलग्नक-I) के अनुसार) में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें उपलब्ध हैं। मतदान कर्मचारी इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिये प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित हैं।

3. अतः; अब, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा लोक सभा, 2014 के वर्तमान साधारण निर्वाचनों में सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के सभी 294 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, अरुणाचल प्रदेश के सभी 60 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों, ओडिशा के सभी

147 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा सिविकम के सभी 32 विधान सभी निर्वाचन क्षेत्रों तथा बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु के 27 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (संलग्नक-I के अनुसार) में से प्रत्येक को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जहां 13-3-2014, 14-3-2014, 15-3-2014, 19-3-2014, 29-3-2014, 2-4-2014, 12-4-2014, और 17-4-2014 को अधिसूचित किए गए/अधिसूचित होने वाले लोक सभा तथा उपर्युक्त राज्यों की विधान सभा के वर्तमान साधारण निर्वाचनों तथा उपर्युक्त संबंधित राज्यों की 27 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के उप-निर्वाचनों में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं।

आदेश से,

हस्ता,

(आशीष चक्रवर्ती)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

संलग्नक-I

### विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उप-निर्वाचन

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	मतदान की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बिहार	20	चौरैया	7 मई, 2014
2.	बिहार	55	कोचाधामन	24 अप्रैल, 2014
3.	बिहार	57	बायसी	24 अप्रैल, 2014
4.	बिहार	112	महाराजगंज	7 मई, 2014
5.	बिहार	145	साहेबपुर कमाल	30 अप्रैल, 2014
6.	गुजरात	1	अबडासा	30 अप्रैल, 2014
7.	गुजरात	6	रापर	30 अप्रैल, 2014
8.	गुजरात	27	हिंमतनगर	30 अप्रैल, 2014
9.	गुजरात	87	बिसावदर	30 अप्रैल, 2014
10.	गुजरात	90	सोमनाथ	30 अप्रैल, 2014
11.	गुजरात	96	लाठी	30 अप्रैल, 2014
12.	गुजरात	157	मांडवी (अ.ज.जा.)	30 अप्रैल, 2014
13.	हिमाचल प्रदेश	37	सुजानपुर	7 मई, 2014
14.	मध्यप्रदेश	144	विदिशा	24 अप्रैल, 2014
15.	महाराष्ट्र	33	रिसोड	10 अप्रैल, 2014
16.	मिजोरम	28	हरांगतुर्जे (अ.ज.जा.)	9 अप्रैल, 2014
17.	उत्तर प्रदेश	165	उन्नाव	30 अप्रैल, 2014
18.	उत्तर प्रदेश	240	फतेहपुर	30 अप्रैल, 2014
19.	उत्तर प्रदेश	244	रामपुर खास	7 मई, 2014
20.	उत्तर प्रदेश	247	विश्वनाथगंज	7 मई, 2014
21.	तमिल नाडु	28	आलन्दुर	24 अप्रैल, 2014
22.	पश्चिम बंगाल	10	कुमार ग्राम (अ.ज.जा.)	17 अप्रैल, 2014
23.	पश्चिम बंगाल	16	मैनागुड़ी (अ.जा.)	17 अप्रैल, 2014
24.	पश्चिम बंगाल	86	सान्तिपुर	12 मई, 2014
25.	पश्चिम बंगाल	91	चकदहा	12 मई, 2014
26.	पश्चिम बंगाल	256	कतुलपुर (अ.जा.)	7 मई, 2014
27.	पश्चिम बंगाल	274	गालसी (अ.जा.)	30 अप्रैल, 2014

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**  
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 1st April, 2014—11 Chaitra, 1936 (Saka)

**DIRECTION**

No. 576-3-EVM-2014-SDR-Vol. I.—WHEREAS, Section 61A of the Representation of the People Act, 1951, provides that the giving and recording of votes by Voting Machines in such manner as may be prescribed, may be adopted in such constituencies as the Election Commission of India may, having regard to the circumstances of each case specify; and

2. WHEREAS, the Commission has considered the circumstances in all the Parliamentary Constituencies and the Assembly Constituencies, and is satisfied that sufficient number of Electronic Voting Machines are available for taking the poll in all Parliamentary Constituencies of India, and all Assembly Constituencies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim and in the 27 Assembly constituencies (as per Annexure-I) of Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Uttar Pradesh, Tamil Nadu & West Bengal. The polling personnel are well trained in efficient handling of the Electronic Voting Machines and the electors are also fully conversant with the operation of the Electronic Voting Machines;

3. Now, THEREFORE, the Election Commission of India hereby specifies each of the 543 Parliamentary Constituencies at the current General Election to the House of the People, 2014, each of the 294 Assembly Constituencies of Andhra Pradesh, each of the 60 Assembly Constituencies of Arunachal Pradesh, each of the 147 Assembly Constituencies of Odisha and each of the 32 Assembly Constituencies of Sikkim at the current General Election to the State Legislative Assemblies and the 27 Assembly Constituencies (as per Annexure-I) of Bihar, Gujarat, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mizoram, Uttar Pradesh, Tamil Nadu & West Bengal, from where bye-elections are being held as the Constituencies in which the votes at the current General Elections to the House of the People and State Legislative Assemblies of the said States and the bye-elections to 27 Assembly Constituencies concerned in the said States, Notified/to be notified on 13-3-2014, 14-3-2014, 15-3-2014, 19-3-2014, 29-3-2014, 2-4-2014, 12-4-2014 & 17-4-2014, shall be given and recorded by means of Electronic Voting Machines in the manner prescribed under the Conduct of Elections Rules, 1961, and the supplementary instructions issued by the Commission from time to time on the subject.

By order,  
Sd/-  
(ASHISH CHAKRABORTY)  
Secretary,  
Election Commission of India.

**Annexure-I**

**Bye-elections to the Legislative Assembly Constituencies**

Sl. No. (1)	State (2)	AC No. (3)	Name of AC (4)	Date of Poll (5)
1.	Bihar	20	Chiraia	7th May, 2014
2.	Bihar	55	Kochadhaman	24th April, 2014
3.	Bihar	57	Baisi	24th April, 2014
4.	Bihar	112	Maharajganj	7th May, 2014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Bihar	145	Sahebpur Kamal	30th April, 2014
6.	Gujrat	1	Abdasa	30th April, 2014
7.	Gujrat	6	Rapar	30th April, 2014
8.	Gujrat	27	Himatnagar	30th April, 2014
9.	Gujrat	87	Visavadar	30th April, 2014
10.	Gujrat	90	Somnath	30th April, 2014
11.	Gujrat	96	Lathi	30th April, 2014
12.	Gujrat	157	Mandvi (ST)	30th April, 2014
13.	Himachal Pradesh	37	Sujanpur	7th May, 2014
14.	Madhya Pradesh	144	Vidisha	24th April, 2014
15.	Maharashtra	33	Risod	10th April, 2014
16.	Mizoram	28	Hrangturzo (ST)	9th April, 2014
17.	Uttar Pradesh	165	Unnao	30th April, 2014
18.	Uttar Pradesh	240	Fatehpur	30th April, 2014
19.	Uttar Pradesh	244	Rampur Khas	7th May, 2014
20.	Uttar Pradesh	247	Vishwanath Ganj	7th May, 2014
21.	Tamil Nadu	28	Alandur	24th April, 2014
22.	West Bengal	10	Kumargram (ST)	17th April, 2014
23.	West Bengal	16	Maynaguri (SC)	17th April, 2014
24.	West Bengal	86	Santipur	12th May, 2014
25.	West Bengal	91	Chakdaha	12th May, 2014
26.	West Bengal	256	Katulpur (SC)	7th May, 2014
27.	West Bengal	274	Galsi (SC)	30th April, 2014